



भारत का राजपत्र The Gazette of India

बसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 1979/ माघ 9, 1900

No. 32]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 1979/MAGHA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. : 9-आई. टी. सी. (पी. एन.)/79

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1979

विषय : 1978-79 की आयात-नीति—विस्फ़ोस स्टेपल फाइबर और पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का आयात।

मिसल सं. आई. पी. सी./3/15/78.—वाणिज्य विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 22-आई.टी.सी. (पी. एन.)/78 दिनांक 3 अप्रैल 1978 के अधीन प्रकाशित आयात-नीति 1978-79 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न (बैस फ्लैट—केवल प्रथम क्वालिटी) के आयात को असंशोधित करने का निश्चय किया गया है। तदनुसार आयात-नीति 1978-79 के परिशिष्ट 8 में आने वाली प्रविष्टि सं. 36 को निम्नलिखित ढंग से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाता है :—

“पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न (बैस फ्लैट—प्रथम क्वालिटी में भिन्न)”

3. 31 मार्च, 1979 को या इससे पूर्व पोतलवान के लिए बिना किसी स्थायिक अवधि के पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न (बैस फ्लैट—प्रथम 1142 GI/78

क्वालिटी) के आयात की अनुमति, निम्नलिखित मामलों में खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दी जाएगी :—

- (1) आयात-व्यापार-नियंत्रण आदेश सं. 5/79 दिनांक 29-1-1979 द्वारा यथासंशोधित खुला सामान्य लाइसेंस सं. 3/78 दिनांक 3-4-1978 में उल्लिखित शर्तों के अधीन वास्तविक उपयोगिता (औद्योगिक) को।
- (2) आयात-व्यापार-नियंत्रण आदेश सं. 5/79, दिनांक 29-1-79 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्टेट कॉमिन्स एवं फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया को।
- (3) आयात-व्यापार-नियंत्रण आदेश सं. 5/79, दिनांक 29-1-79 और वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई. टी. सी. (पी. एन.)/78 दिनांक 15 मई, 1978 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उद्योगों के सम्बद्ध राज्य निर्देशकों द्वारा मान्यता प्राप्त वास्तविक उपयोगिताओं की संस्थाओं एवं सहकारी समितियों को।

4. खुला सामान्य लाइसेंस सं. 3/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978 में उल्लिखित शर्तों के वास्तविक उपयोगिताओं (औद्योगिक) को किसी भी रियायती अवधि के बिना 31 मार्च 1979 को या उससे पूर्व खुला सामान्य लाइसेंस के अधीन विस्फ़ोस स्टेपल फाइबर के पोत लान की पहल ही अनुमति है। ऐसे आयात, आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं. 5/79 दिनांक 29 जनवरी, 1979 में उल्लिखित अनुसार वस्तु आयुक्त के पास सीबिदा के पंजीकरण से संबंधित आगों की शर्तों के अधीन भी होंगे।

का. नं. शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND
COOPERATION**

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 9-ITC(PN)/79

New Delhi, the 29th January, 1979

Subject : Import Policy, 1978-79—Import of Viscose staple fibre and polyester filament yarn.

F. No. IPC/3/15/78.—Attention is invited to the Import Policy, 1978-79 published under the Department of Commerce Public Notice No. 22-ITC(PN)/78 dated the 3rd April, 1978, as amended from time to time.

2. It has been decided to de-canalise the imports of polyester filament yarn (base flat—first quality only). Accordingly entry No. 36 appearing in Appendix 8 of Import Policy, 1978-79 shall be amended to read as under :—

“Polyester filament yarn (other than base flat—first quality)”.

3. Imports of polyester filament yarn (base flat—first quality) will be allowed in the following cases under Open Gen-

eral Licence for shipment on or before 31st March, 1979, without any grace period whatsoever :—

- (i) Actual Users (Industrial) subject to conditions laid down in OGL No. 3/78 dated 3-4-1978 as amended under ITC Order No. 5/79 dated 29-1-1979.
- (ii) State Chemicals & Pharmaceuticals Corporation of India subject to the conditions laid down in ITC Order No. 5/79 dated the 29th January, 1979.
- (iii) Association and Cooperative Societies of actual Users recognised by the concerned State Director of Industries subject to the conditions laid down in ITC Order No. 5/79 dated 29-1-1979 and Department of Commerce Public Notice No. 31-ITC(PN)/78 dated the 15th May, 1978.

4. Import of viscose staple fibre is already allowed to Actual Users (Industrial) under Open General Licence for shipments on or before 31st March, 1979 without any grace period whatsoever, subject to the conditions laid down in OGL No. 3/78 dated the 3rd April, 1978. Such imports shall also be subject to the further condition regarding registration of contracts with the Textile Commissioner as laid down in ITC Order No. 5/79 dated the 29th January, 1979.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports